



दिनांक : 12.09.2020

## अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना

(FOR BSc, BCA, BBA, BCom, MBA Final Semester Students)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन हमेशा की तरह ऑफलाइन मोड में (समय 2 घंटे) महाविद्यालय प्रांगण में करवाया जायेगा।

प्रश्न पत्र जो पूर्व में A,B,C तीन भागों में विभाजित होता था, इस परीक्षा में पार्ट A और पार्ट B में विभाजित होगा।

पार्ट A में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 30 शब्द होगा तथा सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे। पार्ट B में प्रत्येक प्रश्न के A और B में से कोई एक का चुनाव करते हुए पांच प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्द होगा तथा सभी प्रश्न 6 अंक के होंगे।

50 अंकों की परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों को यथानुरूप 80 अंक में बदल कर अंक दिए जाएंगे।

ऑफलाइन मोड की परीक्षाएँ 21 सितम्बर 2020 से प्रारंभ होगी।

### परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक घंटे पहले रिपोर्ट करना आवश्यक है।
2. थर्मल स्कैनर का उपयोग प्रवेश द्वार पर किया जाएगा।
3. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल स्वयं लेकर आयें।
5. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में बिना छोटी हैंड सेनिटाइजर बोतल के जाने की अनुमति नहीं होगी।
6. परीक्षा हॉल में नियमानुसार दूरी सुनिश्चित रहेगी।
7. परीक्षा के लिए प्रवेश मुख्य परीक्षा देने वालों को आई डी कार्ड से दिया जाएगा और एटीकेटी देने वालों को आई डी कार्ड एवं परीक्षा की फ़ीस रसीद से दिया जाएगा।
8. COVID दिशानिर्देशों के अनुसार, परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले या बाद में इकट्ठा नहीं होना है।
9. जिन विद्यार्थियों ने सेमेस्टर फीस, असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं वे जमा करवाएँ।

प्रो. नवनीत अग्रवाल  
परीक्षा नियंत्रक